

The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E) Mumbai- 400 051

SRF/SEC/AGM-51/2022

23rd June, 2022

Dear Sir.

Sub: Newspaper Advertisement- Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India(Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations')

In Compliance with Regulation 30 read with Schedule III Para A, of SEBI Listing Regulations and in compliance with the General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and 2/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022, we enclose the copies of the newspaper advertisements published on June 23, 2022 for giving Public Notice to the Shareholders intimating that the 51st Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, July 21,2022 at 1100 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.srf.com

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **SRF LM | TED** 

Rajat Lakhanpal

VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Enci: A/a

SRF LIMITED

Block-C Sector-45 Gurugram 122 003 Haryana India Tell: +91-124-4354400 Fax: +91-124-4354500 E-mail: info@srf.com Website: www.srf.com

Regd. Office: Unit No. 236 & 237, 2nd Floor DLF Galleria, Mayur Place Noida Link Road Mayur Vihar Phase-1 Extension Delhi 110091

**FINANCIAL EXPRESS** 

### इंडियन बेंक Indian Bank

🛕 इलाहाबाद बेंक

**ALLAHABAD BANK** 

Zonal Office Lucknow, New Building, 2nd Floor, Hazratgani, Lucknow-226001 Ph.: 0522-2286272, 2287283. Fax: 0522-2288033, E-mail id: zolucknow@indianbank.co.in

### POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank) under Securitisation and Reconstruction of Financia 'Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice on the

SI.	Name of the Account	Description of Mortgaged property (all the part & parcel of the	Dt. of Demand Notice Dt. of Possession Notice
deali there	ing with the property/les will be subject to the ch	in general are hereby cautioned not to deal wi large of Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank) low. The borrower attention is invited to provi redeem the secure assets.	for the amounts and interes

Branch: Rajkiya Ayurvedic College, Rajajipur	ı		
	ı	Branch: Rajkiya Ayurvedic Co	llege, Rajajipur

Tehsil-Sarojni Nagar, Lucknow-226002.

1 Borrower and Mortgagor: Shri Dharmender Equitable Mortgage of Property situated at part of Kumar Singh S/o of Shri Munner Singh, Plot No. 10A, of Khasra No. 859 of Minjumla situated Add.1. Vill-Gopalpur, Tehsil-Harriya, at Aurangabad Jageer, Ward-Raja Bijli Pasi, Tehsi Hariyapur, Basti-272127. Sarojni Nagar, Lucknow, Measuring Area: 100.3715 Add. 2. Plot No. 10A, Khasra No. 859, Sq.Mtr., Boundaries: as per deed: East: 24.0 Ft

property consisting of) Amt. outstanding 04.12.2021 20.06.2022

₹ 11,57,445.00 + Interest accrued thereon Aurangabad Jageer, Ward-Raja Bijli Pasi, Wide Road, West: Plot Sajivan Lal, North: Plot Amir

Authorised Officer, India Bank (Erstwhile Allahabad Bank)



Date: 23.06.2022, Place: Lucknow

# SRF LIMITED

CIN: L18101DL1970PLC005197

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091 Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurugram-122003 Tel. No: (+91-11) 49482870, (+91-124) 4354400 Fax: (+91-11) 49482900, (+91-124) 4354500

Singh, South: 24.0 Ft. wide Road.

#### INFORMATION REGARDING 51st ANNUAL GENERAL MEETING OF SRF LIMITED

Email: cs@srf.com; Website: www.srf.com

51st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") on Thursday, July 21, 2022 at 11:00 a.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Listing Regulations and Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read together with Circular No. 02/2021 dated January 2021 and Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 (collectively referred to as 'SEBI Circulars') and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC at www.evoting.nsdl.com. Members participating through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, electronic copy of the Annual Report for financial year 2021-22 and Notice of the AGM will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.srf.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of NSDL, the e-voting agency at https://evoting.nsdl.com

Members who have not registered their E-mail address may temporarily get their E-mail address and mobile number registered with the Company's Registrar, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for getting the soft copy of the notice and e-voting instructions. In case of any query, member may send mail to cs@srf.com or Einward.ris@kfintech.com along with request letter mentioning their folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and any document (such as Driving License, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member.

Members may also update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Company's Registrar in case the shares held in physical form.

The manner of voting remotely ("remote e-voting") has been provided in the Notice of the AGM The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or

Members are requested to register / update their complete bank details with - their Depository Participant(s), if shares are held in electronic mode and Company's Registrar by submitting (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details (Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details), (ii) self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque leaf at einward.ris@kfintech.com, if shares are held in physical mode.

For SRF LIMITED

Date of

Possession

Rajat Lakhanpal VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

**Demand Notice Date** 

Place: Gurugram

Name of the Borrower(s) /

Date: 22.06.2022

e-voting during the AGM.

PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LTD.

#### Piramal (Formerly Known as Dewan Housing Finance Corporation Ltd.) CIN:L65910MH1984PLC032639

Description of Secured Asset

(Immovable Property)

Registered Office: Unit No.-601,6th Floor ,Piramal Amiti Building, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction, Opp. Fire Station,LBS Marg,Kurla (west) ,Mumabai-400070 -T +91 22 3802 4000. Branch Office :Plot no-6, Block-A 2nd Floor, Sector 2, Noida - 201301 POSSESSION NOTICE For Immovable Property as per Rule 8-(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and Appendix-IV

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Piramal Capital & Housing Finance Ltd. (Formerly Known as Dewan Housing Finance Corporation Ltd) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub --section (8) of section 13 of the Act, in respect o time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Piramal Capital & Housing Finance Ltd. (Formerly Known as Dewan Housing Finance Corporation Ltd) for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

water annual (a)	Interest Control of the Control of t	and Philodin	1.0000001011
(Loan Code No-00001721),(Meerut- Branch), Rajkishor (Borrower) /Rajni Kishor (Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Part Of Plot No.3,khasra No.308, Mohalla Chamri Pargana, Tehsil Hapur Hapur, Up Ghaziabad Uttar Pradesh :- 245101	18-01-2022 for Rs. 1455982/-(Rupees Fourteen Lakh Fifty Five Thousand Nine Hundred Eighty Two Only)	14.06.2022 (Symbolic)
(Loan Code No-00000688),(Netaji Subhash Place-Branch), Aakriti Info Media Pvt Ltd (Borrower) /Kusum Digari, Devendra Singh Digari (Co- Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Khet No.849 Mi, 850mi, 851mi, 1, Aakriti Play School Village Mukhani (judge Farm) Haldwani, Nainital Nainital Uttaranchal 263139	29-10-2019 for Rs. 9682367/-(Rupees Ninety Six Lakh Eighty Two Thousand Three Hundred Sixty Seven Only)	15.06.2022 (Symbolic)
(Loan Code No-00041542),(Noida - sector 2-Branch), Bharat Ghanshyam Laiwani (Borrower) /Mamta Bharat Laiwani (Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Flat No: 2008, 20th Floor Tower- T-26 , Paras Tierea Noida , Sec-137 Noida Gautambudh Nagar Uttar Pradesh :- 201301	18-01-2022 for Rs. 1716131/-(Rupees Seventeen Lakh Sixteen Thousand One Hundred Thirty One Only)	17.06.2022 (Symbolic)
(Loan Code No-00000728),(Raj Nagar-Branch), Ombir Singh (Borrower)/Anita Bhati(Co-Borrower)		30-04-2021 for Rs. 9600975/-(Rupees Ninety Six Lakh Nine Hundred Seventy Five Only)	18.06.2022 (Symbolic)
(Loan Code No-DEL37199), (Delhi - Safdurjung-Branch), Mrityunjaya Prasad Gupta (Borrower) / (Co- Borrower)	All the Part & Parcel of Property - H/FLAT NO.804 , FLOOR NO. 8TH FLOOR , PLOT NO. TOWER B 4 , M3M WOOD SHIRE , SECTOR. 107 , VILLAGE , GURGOAN GURGAON Gurgaon Haryana :- 122001	31-05-2021 for Rs. 6948711/-(Rupees Sixty Nine Lakh Forty Eight Thousand Seven Hundred Eleven Only)	18.06.2022 (Symbolic)
(Loan Code No-00001895), (Ghaziabad-Branch), Vijay Kumar Jarwal (Borrower) /Savita ,Vimal Jarwal (Co-Borrower)		14-06-2021 for Rs. 3136772/-(Rupees Thirty One Lakh Thirty Six Thousand Seven Hundred Seventy Two Only)	20.06.2022 (Symbolic)
(Loan Code No-00000942),(Delhi- Branch), Vikash Ranjan (Borrower) /Priti Santosh (Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Flat No G-05, Ground Floor Tower- G, K D P Grand Savana Raj Nagar Extension, Ghaziabad, Ghaziabad-201010	21-01-2020 for Rs. 3367012/-(Rupees Thirty Three Lakh Sixty Seven Thousand Twelve Only)	20.06.2022 (Symbolic)
(Loan Code No-00042016),(Faridabad - Sector 19-Branch), Ravinder Singh (Borrower) /Deepa (Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - H.no 1363, Rhs Gali No 41 Saran Road, Parvatiya Colony li Near Saraswati School Faridabad Faridabad Haryana:-121005	18-01-2022 for Rs. 1779248/-(Rupees Seventeen Lakh Seventy Nine Thousand Two Hundred Forty Eight Only)	20.06,2022 (Symbolic)
(Loan Code No-00043854),(Gurgaon - Sohna Road-Branch), Vishal Ranjan (Borrower) /Rupali Shristi (Co- Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Flat No 1102 11th Floor block No- B Office City 2, Raj Nagar Extension Nh 58 Ghaziabad Ghaziabad Ghaziabad Uttar Pradesh :- 201014	22-02-2022 for Rs, 3477749/-(Rupees Thirty Four Lakh Seventy Seven Thousand Seven Hundred Forty Nine Only)	20.06.2022 (Symbolic)
(Loan Code No-DEL35291),(Delhi - Safdurjung-Branch), Pooja Juneja (Borrower)/(Co-Borrower)	All the Part & Parcel of Property - H/FLAT NO.E1/704 , FLOOR NO. 7TH , SHREE VARDHMAN GARDENIA , VILLAGE SONEPAT , SONEPAT, -131001	21-01-2020 for Rs. 1900510/-(Rupees Nineteen Lakh Five Hundred Ten Only)	21.06.2022 (Symbolic)
(Loan Code No-00000061), (Bahadurgarh-Branch), Rajpal Malik (Borrower) /Balkesh Rani (Co- Borrower)	All the Part & Parcel of Property - Villa No. 1760, Block - D Omaxe City Near Village Revli Sonepat Sonipat Haryana:- 131001	12-05-2021 for Rs. 1074921/-(Rupees Ten Lakh Seventy Four Thousand Nine Hundred Twenty One Only)	21.06.2022 (Symbolic)
(Loan Code No-0000697).(Rohtak- Branch), Baba Shirdinath Education Society (Borrower) /Amar Pal, Jitender	All the Part & Parcel of Property - Kila No 64//1/2/4(3-8), 9/2/2(6-7) Near Shree Sai Service Station VIII Basana Teh Kalanaur VIII Basana Teh Kalanaur Rohtak Haryana :-	14-06-2021 for Rs. 9390921/-(Rupees Ninety Three Lakh Ninety Thousand Nine Hundred Twenty One Only)	21.06.2022 (Symbolic)

OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER M-3 DY. SUPERINTENDING ENGINEER (T) M-3 **DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI** H-BLOCK: SECTOR-15: ROHINI: DELHI-89 E-mail Id:- eetenderingm3.djb@gmail.com

माजादी का अमत महोत्स

Dy. Superintending

Engineer (T) M-3

**Press Notice Tender** Name of Work Amount put to EMD/ Date of release of Last date/time of Tender Fee tender procurement receipt of bid through Tender/ **Estimated cost** solution/I.D.No. e-procurement solution 1 Construction of recharge pits at various Rs.39,18,083/-21.06.2022 27.06.2022 2022\_DB\_224817\_1 Upto 3.00 PM locations in AC-01, Narela under ACE (M)3 Rs.500/-

SHORT PRESS NIT No.26 (2022-23)

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in. ISSUED BY P.R.O. (WATER) Advt. No. J.S.V. 201 (2022-23)

Serving To Empower

#### The Jammu & Kashmir Bank Limited IMPAIRED ASSETS PORTFOLIO MANAGEMENT DEPARTMENT

J&K Bank Zonal Office (North) Plot No.132-134 Sector 44, Gurgaon (Haryana) India GSTIN: 06AAACT6167G1ZB: (T) 0124-4715800 Email: iapmd.del@jkbmail.com W: www.jkbank.com

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002

"STOP CORONA; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene'

Whereas, the predecessor of undersigned being the authorized officer of THE JAMMU & KASHMIR BANK LTD under

the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules. 2002 issued demand notices calling upon the borrower(s)/mortgagor(s)/ guarantor(s) mentioned below to repay the amount mentioned in the said notices along with future interest, costs & charges etc. within 60 days from the date of said notices. The borrower(s)/mortgagor(s)/guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the below mentioned dates. The borrower(s)/mortgagor(s)/guarantor(s) in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to charge of The Jammu & Kashmir Bank, Business Unit-Okhla at 9-LSC Okhla-II, Near C-Lal Chowk, New Delhi-110020 for the amount mentioned below and further interest, cost etc., thereon.

The borrower(s)/mortgagor(s)/guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets. Name of the Borrower(e)

mame of the Borrower(s) mortgagor(s)/guarantor(s)	Secured Assets	Date and amount of Demand Notice u/s 13(2)	Possession
1.M/s Creation Computer Tech Pvt Ltd Reg Office: 138, Ground Floor, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi & Head Office at 205, Vishal Bhawan, Nehru place, New Delhi.  2.Mr. Shashi Kant Vig S/o Lt Chetan Lal Vig R/o K-42/A, K Block, Kalkaji, New Delhi-110019.  3.Mr. Ajit Jain S/o Sh. Narinder Kumar Jain R/o 104, Mig Suraj Apartment, Surajkund 4.Mr. Narendera Kumar Jain S/o Lt Dr. Harish Chandra Jain R/o HR123/6, Pul Pehladpur, Surajkund Road, New Delhi. Mrs. Poonam Vig W/o Mr. Shashi Kant Vig	Residential Property situated/build at Plot No K/42 A (Covered area 900 Sq Fts) Ist Floor in the Three Storey Building 'K' Block, Kalkaji, New Delhi.		

DATE: 21-06-2022 PLACE: DELHI Sd/- AUTHORISED OFFICER, JAMMU & KASHMIR BANK

R/o K-42/A, K Block, Kalkaji, New Delhi-

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Chola Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001 Inter a better life Branch Office: Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh,

POSSESSION NOTICE Under Rule 8 (1) WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter talled the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 9 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column B) below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest hereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in

general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire

Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges

outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

NAME AND ADDRESS OF BORROWER **DETAILS OF** PROPERTY POSSESSED & LOAN ACCOUNT NUMBER [B] [C] [D] Loan Account No. - X0HEEDL00002593577 PROPERTY: -1 All that piece and parcel of the Unit No.58 at NHPC Executives Sahkari and HE02EDL00000001629) Avas Samiti Ltd in Plot No.6, Sector- P-4 Borrower & Co-Borrowers: 1. ASHWINI KUMAR having area of 356.730 Sq.Mtrs at Greater Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar LEGAL HEIR BEING SON OF LATE YOGENDRA 2. ASHWINI KUMAR PROPERTY: -2 LEGAL HEIR BEING SON OF LATE

Above At: Plot No.58, Pocket-P-4, NHPC Society, Near Jalvayu Vihar Appt., Greater Noida, Uttar Pradesh - 201310 Also, at :- A-42, 2nd Floor, Sec-63, Noida, Uttar Pradesh - 201301 Also, at: - 319- E, Saket Colony, Azabpur Kalan, Dehradun-248001 Also at: 18724, COMX-AVENUE SARATEGA, CA-095070, CALIFORNIA, USA. Email id- kumarashwini@gmail.com

PRATIMA PRASAD

3. ASHWINI KUMAR

4. ASTIN TECHNOLOGY PVT LTD (service through its Principal officer) At: Plot No.58, Pocket-P-4, NHPC Society, Near Jalvayu Vihar Appt., Greater Noida, Uttar Pradesh -Also, at: - ASTIN TECHNOLOGY PVT LTD (service through its Principal officer)

319- E, Saket Colony, Azabpur Kalan, Dehradun-Also at: Registered Address: ASTIN TECHNOLOGY PVT LTD H-9/9, First floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Registered email:yprasad45@gmail.com 5. PRASAD AGRICO INDUSTRIES PVT LTD (Service Through Its Principal Officer) At: Plot No.58, Pocket-P-4, NHPC Society, Near lalvayu Vihar Appt., Greater Noida,

Also, at:- 319- E, Saket Colony, Azabpur Kalan, Dehradun-248 001 Also at: - Registered Address Flat no 102, Suresh Apartment North S.K Puri Patna Patna, Bihar-800013 Registered email- kumarashwini@gmail.com

Name of the Branch & Borrowers

Uttar Pradesh - 201310

No.1137 (According to Khatauni 1417 to 1422 Fasli) bearing Khasra No. 561ta (Old Khasra No.319 Min.) area measuring 0.095 Hectare (or 0.235 Acre) (Schedule A) Land Khatauni Khata No.1243 (according to Khatauni 1417 to 1422 Fasli) bearing Khasra No.561 da (Old Khasra No.319 Min.) area Measuring 0.095 Hectare or 950 Sq.Mtrs (or 0.235 Hectare) (Schedule B) & Khatauni Khata No.1138 (according to Khatauni 1417 to 1422 Fasli) bearing Khasra No. 561 gha (Old Khasra No.319 Min.) area measuring 0.154 Hectare or 0.38 Acre (but the inserted area in revenue record is 0.1140 Hectare) (Schedule -C) Situated at Mauza Ajabpur Kalan, Pargana, Central Doon, District Dehradun, Uttarkhand bounded and butted as under :- East - Land of Shri Subrala Negi, West - 12 ft. Wide Road North - Land of Ranjeet Singh, South - Village

roperty bearing Land Khatauni Khata

Date: 23/06/2022 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 🌑 Central Bank of India Regional Office Astley Hall, Rajpur Road, Dehradun

Description of Immovable Property

Where as, the undersigned being the authorised officer of the Central Bank of India, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice as mentioned against account stated here in to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notices. The borrowers/Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the dates mentioned against each account. The borrower's attention is invited to provisions of Sub Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. The borrowers / Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Central Bank Of India, Main Branch Dehradun for the amount and interest thereon.

Appendix IV (See Rule 8(1) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Lease hold factory land and Building Situated at 10.03.2022 Main Branch, Dehradun Borrowers: M/s Buve Beverages Pvt. Ltd. Through its Plot No. 62-65 Sector IIDC SIDCUL, Haridwar, area 573,42,767.00 Director/Guarantor: Sh. Bhupinder Singh S/o Sh. 800 sq. mt. in the name of M/s Buva Beverages Pvt. as on Gurcharan Singh (Sh Bhupinder Singh is now Ltd. Bounded by: On the North by: Plot No. 61, On 10.03.2022 deceased & represented by his legal heirs) 1. Mrs. the South by: Plot No. 66, On the East by: Plot No. + interest & 18.06.2022 other expenses Jatinder Kaur W/o Lt. Bhupinder Singh, 2. Mrs. Juskirat 50-51, On the West by: Road 18 Meter Wide. Singh S/o Lt. Bhupinder Singh, 3. Ms. Prabjyot Kaur D/o Lt Bhupinder Singh, 4. Ms. Harpreet Kaur D/o Lt. Bhupinder Singh and Guarantor/Director: Sh. Manjit Singh S/o Sardar Gurbakash Singh, 1. (Sh. Manjit Singh is now deceased & represented by his legal heirs) (Is) Ms Deepti D/o Lt. Sh. Manjit Singh, 2. Mr. Amrit pal Singh S/o Lt Sh. Manjit Singh, 3. Ms Deepti D/o Lt. Sh. Manjit Singh and

Guarantor/Director: Sh. Amrit Pal Singh S/o Sh. Manjit Singh, Mortgagor/Guarantor/Director: Sh. Inderjeet Singh S/o Sh. Kripal Singh and Guarantors/Mortgagor: Smt. Jaspal Kaur W/o Sh. Manjit Singh & Smt. Jatinder Kaur W/o Sh. Bhupinder Singh. Date -22.06.2022 Place: Dehradun UNDELIVERED

Zonal Office: Krishna Plaza, C-2/6, D-Block, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut- 250 001 (U.P.), SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT

Demand Notice under SARFAESI Act 2002 sec 13(2) were sent to the following Borrowers / Guarantors. We have sent registered notice to the borrower on mentioned herein below dates. Since, No Contact Could be made with the Borrower/Guarantor at the given address the Demand notice were returned to the branch by postal / courier Authorities undelivered. You are hereby advised to pay the outstanding

amount with interest and cost with in 60 days from the date of publication referred here below otherwise Bank will proceed further to take possession of the property under SARFAESI Act 2002 and sell the same to recover the Bank dues. As per Section 13 (13) of SARFAESI Act on receipt of this notice you are restrained from disposing of or dealing with the above securities except in the usual course of business without the consent of the Bank. Please note any violation of this section entails serious consequences. Any kind Sale purchase of the property will be subject to the charged of the UCO Bank P.L. Sharma Road, Meerut Branch. Name of the Date of Amount Due as per **Details of Mortgage Property** Borrower/Guarantor Demand Notice | Demand Notice Borrower: Mr. Kuldeep Kumar S/o Sh. Prem A Residential House at Khasra No-24/2, Mohalla hanuman Vihar 24.05.2022

> as on 30.04.2022 + Inclusive of NPA interest upto 30.04.2022 Authorized Officer

Amount

**DEMAND NOTICE** 

DEMAND NOTICE Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of

Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd.(IIFL HFL) ( Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them n connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of theBorrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-Name of the Borrower(s). Demand Notice Date & Amount Description of secured asset (immovable property) 20-June-2022 Prospect no. 946267

Mr. RD Sharma, Mrs. Alka Rs. 10.00,682/- (Rupees Ten Lakh All that piece and parcel of the property Sharma, Mr. Ankit Sharma, Six Hundred Eighty Two Only) being :Prop-149, khasra no. 254 Mrs. Santosh Sharma Prospect no. 947096 Rs. 1,02,444/- admeasuring 360 Sq.ft Bhagwati, (Prospect No. 946267 (Rupees One Lakh Two Thousand Garden Extention, Gali-13, Ultam Four Hundred Forty Four Only) Nagar, Delhi, Delhi, 110059, Delhi, India If the said Borrowers fail to make payment to IFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office : IFL HFL Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi/or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV

Place: Delhi Date: 23.06.2022 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd Form no INC-26

[[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT/ REGIONAL DIRECTOR. NORTHERN REGION, NEW DELHI

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 IN THE MATTER OF ONKAR ENGINE & GENERATOR PRIVATE LIMITED INCORPORATED

UNDER THE COMPANIES ACT, 1956 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT VILLAGE MAGANPURA ROPAR-NALA-GARH ROAD, TEH NALAGARH, SOLAN, HIMACHAL PRADESH-174101 CIN:U31100HP2004PTC026734, Email-Id: onkarengine@casngargco.ir Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution

passed at the Extraordinary general meeting held on, Friday, 17th June, 2022 to enable the company to change its Registered office from the Himachal Pradesh to the State of Uttar Pradesh Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/he objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI OR through e-mail at rd.north@mca.gov.in within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: **Onkar Engine & Generator Private Limited** Village Maganpura Ropar-Nala-Garh Road,

Teh Nalagarh, Solan, Himachal Pradesh- 174101 By Order of the Board **Omkar Engine & Generator Private Limited** Rajeev Khandelwal Manoj Khandelwal Director Director

DIN: 00596934 ADD: 2 Cottage No. 19, H.M. Rohatgi Apartments 1-Ram Kishore Road, Civil Lines, New Delhi-110054 Date: 23/06/2022 Place: Himachal Pradesh

DIN: 03494675 ADD: C-19, BM Rohatgi Apartments 1-Ram Kishore Road, Civil Lines, New Delhi-110054

FORM G **INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST** (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 RELEVANT PARTICULARS

Elena Power and Infrastructure Limited 1 Name of the corporate debtor Date of Incorporation of corporate debtor | April 24, 2008 3 Authority under which corporate debtor is incorporated / registered 4. Corporate identity number / limited liability U45204DL2008PLC177186 identification number of corporate debtor Address of the registered office and Registered Office: 854-A, Gali No 51 Block E principal office (if any) of the Molarband Extn. Badarpur, New Delhi-110044 corporate debtor Previous Addresses: 1. B-91/1, Ground Floor Jawahar Park, Khan Pur, New Delhi, DL-110062 2. A-49. Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpu New Delhi, DL-110037 6. Insolvency commencement date in May 06, 2022 respect of corporate debtor 7. Date of invitation of expression of interest June 23, 2022 8 Eligibility for resolution applicants under Minimum conditions for Resolution Applicant(s) t

section 25(2)(h) of the Code is available at: approach the Resolution Professional of th Company is: 1. Minimum tangible net worth of INF 5 Cr. As on March 31, 2021 (For Public and Private Limited Co.) For complete details please mail

9. Norms of ineligibility applicable under https://ibbi.gov.in/webfront/legal\_framework.php section 29A are available at: More details can be sought by emailing at Elena.cirp@gmail.com 10 Last date for receipt of expression of interest July 11, 2022 Date of issue of provisional list of July 16, 2022

prospective resolution applicants 12 Last date for submission of objections to July 20, 2022 provisional list 13. Date of issue of final list of prospective July 25, 2022 resolution applicants 14 Date of issue of information memorandum July 20, 2022 evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants

15 Manner of obtaining request for resolution Request may be sent to **elena.cirp@gmail.com** plan, evaluation matrix, information memorandum and further information 16. Last date for submission of resolution plans August 19, 2022 17. Manner of submitting resolution plans to A prospective resolution applicant in the final list ma submit resolution plan or plans prepared resolution professional accordance with the Code and these regulations to the resolution professional electronically within the time given at the email address mentioned in Sl. No. 21.

September 13, 2022

Ashok Arora

18 Estimated date for submission of resolution

19. Name and registration number of the

22. Further Details are available at or with

resolution professional

plan to the Adjudicating Authority for approval

Reg. No.: IBBI/IPA-003/ICAI-N-00279/2020-2021/1313 20 Name, Address and e-email of the Ashok Arora resolution professional, as registered Address: 281 / Sector 51, second floor, Secto with the Board 51, Opp. Amity International School, In front gate no. 2 of Symphony Floors society, Gurgaor 122018, Haryana E-mail: ashok.arora79@yahoo.com 21 Address and email to be used for Address: 281 / Sector 51, second floor, Sector 5 correspondence with the resolution Opp. Amity International School, In front of gate no 2 of Symphony Floors society, Gurgaon, Haryan

23. Date of publication of Form G June 23, 2022 **Ashok Arora** Resolution Professional- Elena Power & Infrastructure Limited Date: June 23, 2022 Place: Gurgaon Registration No: IBBI/IPA-003/ICAI-N-00279/2020-2021/1317 Mail ID: elena.cirp@gmail.com

Address: 281 / Sector 51, Second floor, Sector 51, Opp. Amity International School In front of gate no.2 of Symphony Floors society, Gurgaon, Haryana-12201

## "IMPORTANT"

,122018 E-mail: elena.cirp@gmail.com

On request to Resolution Professional

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

Place: Delhi-NCR Date: 23.06.2022 financialexp.epa r.in

(Borrower)/ Amarjeet Singh (Co- Haryana:-122001

(Loan Code No-00001925),(Noida 1 All the Part & Parcel of Property - A-48/39 A D L F City

Branch), Lakhmi (Borrower) /Sheela 36//12/2, Dev Nagar Colony, Ward No 1, Line Par Kheri

Sampla Rohtak Rohtak Haryana: - 124001

Rajendra Place-Branch), Parmeet Phase-1 Gurgaon Gurgaon Harvana - 122002

,Anju ,Rajender (Co-Borrower)

Borrower)

(Co-Borrower)

(Co-Barrower)

(Loan Code No-00043578).(Delhi -

Singh Sood (Borrower) /Climax

Overseas Pvt Ltd, Aveen Kumar Sood.

Harjeet Kaur Sood, Daljit Singh Sood

Safdurjung-Branch), Babita Mehta Tower E (block E2) Ireo Skyon Sector 60 Gurgaon Gurgaon One Crore Forty Nine Lakh Fifty Four (Symbolic)

(Loan Code No-00000357), (Rohtak- All the Part & Parcel of Property - Khewat No: 734, Killa No: 12-05-2021 for Rs. 1597168/-(Rupees 22.06.2022

All the Part & Parcel of Property - Flat No. 506 5th Floor 08-10-2021 for Rs. 14954406/-(Rupees 21.06.2022

Thousand Four Hundred Six Only)

One Hundred Sixty Eight Only)

18-01-2022 for Rs. 52572612/-(Rupees 21.06.2022

Fifteen Lakh Ninety Seven Thousand (Symbolic)

Five Crore Twenty Five Lakh Seventy

Two Thousand Six Hundred Twelve Only)

(Authorized Officer) Piramal Capital & Housing Finance Ltd.

(Symbolic)

S.K road, Meerut-250001 Date - 22.06.2022

Place : Meerut

OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 REGARDING UNDELIVERED DEMAND NOTICE

Singh (Prop. Ansh Sports), 194, New Hanuman sarai Kazi, garh Road Meerut area measuring 137.67 sq. mt in 20,01,339.28 Puri Suraj Kund Road, Meerut. the name of Shri Kuldeep Kumar S/o Sh. Prem Singh. Boundary: Date of Guarantor: Mr. Ashu Kashyap S/o Sh. East: Road 16 ft wide, West: House of others, North: House of Ramprakash, R/o House No.- 69, Arya Nagar, Bhupesh Tomar, South: House of urmila devi. 30.04.2022 New Delhi

**POONAWALLA HOUSING** 

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) पंजीकृत कार्यालय : 602, 6वां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79 / 1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं / सह–ऋणकर्ताओं / गारंटरों ने मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. ''एमएचएफएल'' अब नवनामित पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि ''पीएचएफएल'' से अपनी अचल संपत्ति / यों को बंधक रखकर संपत्तिगत सुविधा(ओं) के समक्ष आवास ऋण / ऋणानेक प्राप्त किए हैं। आपने प्रतिभुगतान में चुक की है और इसीलिए आपके ऋण/ऋणानेक खातों को अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सुचना जो है वह बकाया धनराशियों की वसूली के लिए अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, जो प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुए बिना ही वापस लौट आई है। अतः, उस सूचना की विषयवस्त् को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, आपको सूचना की वैकल्पिक प्राप्ति हो इस रूप में तथा उस उपाय द्वारा, यहां इस विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है।

ऋणकर्ताओं, सह–ऋणकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभृतियों, बकाया धनराशियों, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सचना तथा उसके अंतर्गत अभ्यर्थित राशि के विवरण निम्नानसार दिए गए हैं:

Ide	१२ण निम्नानुसार १६ए गए हः			
क्र. सं.	ऋणकर्ता, सह—ऋणकर्ता, गारंटर के नाम तथा ऋण राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण	मांग सूचना तिथि	देय राशि (रु.) में
1.	विकास शर्मा, गोरा देवी शर्मा, मीनू शर्मा, दीना नाथ शर्मा ऋण राशिः रु. 1055121.37 / — ऋण सं.: HM/0094/H/16/100081	के स्वरूप में हैं जो खसरा संख्या 373, नगर निगम सं. 8/153/2सी/1ए में है, जिनका मापन क्षेत्र 83.70 वर्ग मीटर है, जो नागला पडी, हरिपर्वत वार्ड, आगरा में स्थित हैं, जिनकी परिस. ीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व— सड़क, पश्चिम— सड़क, उत्तर— भीम चंद मौर्य का मकान, दक्षिण— शंकर लाल का मकान	20.05. 2022	रु. 1181231.31 (रुपए ग्यारह लाख इक्यासी हजार दो सौ इकतीस एवं इकतीस पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 15.05% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ
2.	बांके बिहारी सिंघल, सीमा सिंघल, शुभम सिंघल ऋण राशिः रु. 1230000 / . ऋण सं:: HM/0094/H/18/100007	के स्वरूप में हैं जो खसरा संख्या 339, नगर पंचायत सं. 91541300012110ध10 में है, जिनका मापन क्षेत्र 111.63 वर्ग मीटर है, जो नागला उड़ैया मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, मौजा खेड़ागढ़, तहसील खेड़ागढ़, जनपद आगरा में स्थित हैं, जिनकी परिसीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व— अन्य संपत्ति, पश्चिम— गली 10 फुट चौड़ी, उत्तर— जगदीश प्रसाद का मकान, दक्षिण— रमन लाल की संपत्ति	23.05. 2022	रु. 1383437.12 (रुपए तेरह लाख तिरासी हजार चार सौ सैंतिस एवं बारह पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 15.00% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ
3.	जगबीर सिंह, अजब सिंह, कविता ऋण राशिः रु. 167000/. एवं रु. 835000/ ऋण सं.: HL/0179/H/19/100014 एवं HM/0179/H/18/100128	बंघककृत संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश, जो उस अविशिष्ट भूखंड संख्या स्वरूप में हैं, जिनका क्षेत्र मापन 265.00 वर्ग गज अर्थात् 9 मारला है, जो खेवट संख्या 3/3 मिन. खतौनी संख्या 7, मुस्तिल संख्या 122, किला संख्या 7/2(7–19), 6(6–13), 27(0–9) किता 3 रकबा 15 कनाल 01 मारला एवं खेवट संख्या 4/3, खतौनी संख्या 71, मुस्तिल सं. 122 किला संख्या 4/2(1–17), 5(6–13), किता 2 रकबा 8 कनाल 10 मारला में से हैं, जो वाका मौजा तिगांव उप तहसील तिगांव जनपद फरीदाबाद हरियाणा में स्थित हैं, जिनकी अर्थात भूमि की परिसीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व-रास्ता, पश्चिम— भूखंड संख्या 127, उत्तर— भूखंड संख्या 127, दक्षिण— भूखंड संख्या 144	23.05. 2022	रु. 194531.81 (रुपए एक लाख चौरानबे हजार पांच सौ इकतीस एवं इक्यासी पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 15.00% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ रु. 914300.66 (रुपए नौ लाख चौदह हजार तीन सौ एवं छियासठ पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 16.00% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ
4.	पंकज, आकाश कंस्ट्रक्शन इंडिया, रामेश्वरी देवी, दीपिका ऋण राशिः रु. 1500000 / . ऋण सं.: HM/0179/H/16/100083	स्वामित्वधारक आवासीय भूखंड संख्या 43 में हैं, जिनका अधिमापन 100 वर्ग गज है, जो खसरा संख्या 134/7 में से हैं, जो वाका मौजा, सिहरी, तहसील बल्लभगढ़, जनपद फरीदाबाद में स्थित हैं	24.05. 2022	रु. 1637896.71 (रुपए सोलह लाख सैंतिस हजार आठ सौ छियानबे एवं इकहत्तर पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 14.80% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ
5.	विक्रम कुमार, देवी रानी ऋण राशिः रु. 1600000 / — ऋण सं.: HF/0399/H/19/100402	बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो फ्लैट संख्या जी—3 के स्वरूप में भूतल पर हैं, जिनका मापन 600 वर्ग फुट है, जो निर्मित है भूखंड संख्या 717 पर और जो ग्राम साहिबाबाद अनमोल अपार्टमेंट—।। की आबादी, शालीमार गार्डन एक्स., परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व— सर्विस लेन, पश्चिम— सड़क, उत्तर— भूखंड संख्या 718, दक्षिण— भूखंड संख्या 716	25.05. 2022	रु. 1385423.38 (रुपए तेरह लाख पिचासी हजार चार सौ तेईस एवं अड़तीस पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 12.50% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ
अतः साथ	आप ऋणकर्ता / ओं तथा सह—ऋण । उपरांकित मांगी गई राशि का भुगत	कर्ता/ओं/गारंटरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिवसों ान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे उपरोक	के अंदर यहा त वर्णित प्रतिः	इसमें उपरोक्त अंकितानुसार भावी ब्याज के भूति/यों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम

🛮 के अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य–विवश होंगे। कृपया ध्यान में रखें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आपको इस बीच प्रतिबंधित किया जाता है कि आप हमारी सहमति के बिना ऊपर-संदर्भित प्रतिभूतियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

स्थानः आगरा / फरीदाबाद दिनांकः 23.06.2022

कृते पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) प्राधिकृत अधिकारी

# दक्षिणी रेलवे

निविदा सूचना सं. एमडीयू—डब्ल्यू—10—2022 दिनांकित 17.06.2022

मंडलीय रेलवे प्रबंधक / निर्माण / दक्षिणी रेलवे / मदुरै द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। मद संख्या 1 से 17 तक की निविदा समापन तिथि 13.07.2022 है तथा मद संख्या 18 से 29 हेतु 20.

報.	क्षार्थ का <del>नाम</del>	अनुमानित मूल्यः रु लाखः म	<u>송</u> ફ쉬계	समापन अवधि
1.	जोनल अंश निर्माण अनुबंध— जोन एएल डिंडीगुल एवं मनापराय। 01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु पीवे सेक्शन्स	105.24	202600	12 माह
2.	01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण	63.78	127600	12
3.	अनुबंध जोन ए2 पलानी पीवे सेक्शन 01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण			माह 12
4	अनुबंध जोन ए3 पुडुकोटाइ पीवे सेक्शन 01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण	43.05	86100	माह
4.	अनुबंध जोन ए4 शिवगंगा पीवे सेक्शन	43.05	86100	12 माह
5.	01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण अनुबंध जोन ए5 मंदापम पीवे सेक्शन	77.34	154700	12 माह
6.	01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण अनुबंध जोन बी1 बीजी / मदुरै एवं एमजी / मदुरै पीवे सेक्शन्स	94.07	188200	12
7.	01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण	14.35	28700	माह 12
8.	अनुबंध जोन बी2 अंदिपट्टी पीवे सेक्शन 01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण			माह 12
	अनुबंध जोन बी3 मदुरै सिटी (स्टॉफ क्वार्टर्स)	97.11	194200	माह
9.	01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण अनुबंध जोन बी4 मनामदुरै पीवे सेक्शन	43.05	86100	12 माह
10.	01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण अनुबंध जोन बी5 मदुरै सिटी (सर्विस बिल्डिंग्स)	73.92	147900	12 माह
11.	01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण	19.80	39600	12
12.	अनुबंध जोन बी6 कोड्डाईकनाल हिल्स 01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण	85.30	170600	माह 12
13.	अनुबंध जोन सी1 विरुद्धुनगर पीवे सेक्शन 01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण	5		माह 12
	अनुबंध जोन सी2 शिवकाशी पीवे सेक्शन	53.41	106800	माह
14.	01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण अनुबंध जोन सी3 तूतिकॉरिन पीवे सेक्शन	81.31	162600	12 माह
15.	01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण अनुबंध जोन सी4 तिरुनेलवेलि एवं श्रीवैकुंदम पीवे सेक्शन्स	95.66	191300	12 माह
16.	01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण	83.85	167700	12
17.	अनुबंध जोन सी5 सेनगोत्ताई पीवे सेक्शन 01.07.2022 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु जोनल अंश निर्माण	89.84	179700	माह 12
18.	अनुबंध जोन सी6 पुनलुर पीवे सेक्शन विरुद्नगर—तेंकासी—सेनगोत्ताई सेक्शनः— सेनगोत्ताई स्थायी वे सेक्शन	69.64	179700	माह
10.	में संकरानकोविल—सेनगोत्ताई स्टेशनों के मध्य में कि.मी. 624.000 से 667.300 के मध्य पृथक्कृत अवस्थितियों पर निर्माण का प्रस्तावित मानकीकरण	163.58	231800	6 माह
19.	वांची मनियाच्ची—तिरुनेलवेलि एवं तिरुनेलवेलि—तेनकासी सेक्शनः — तिरुनेलवेलि स्थायी वे सेक्शन में तिरुनेलवेलि—अंबासमुद्रम स्टेशनों के मध्य में कि.मी. 29.400 से 56.300 के मध्य पृथक्कृत अवस्थितियों पर एवं नराइक्किनर—गंगाइकोंडन स्टशेनों के मध्य में कि.मी. 9.300 से 11.850 के मध्य पृथक्कृत अवस्थितियों पर निर्माण का प्रस्तावित मानकीकरण	137.21	218600	6 माह
20.	विरुदुनगर—तूर्तिकॉरन सेक्शन:— विरष्ठ अनुभाग अभियंता / स्थायी वे / तूर्तिकॉरन अनुभाग में विभिन्न स्टेशन यार्डों पर 12.061 कि.मी. की एक लंबाई हेतु लूप लाइंस पर एम+4 से एम+7 तक स्लीपर डेंसिटी में वृद्धि करना तथा 7.846 कि.मी. की एक लंबाई हेतु अप मेन लाइंस पर पृथक्कृत अवस्थितियों पर एम+7 से एम+8 तक स्लीपर डेंसिटी की प्रस्तावित वृद्धि ।	182.76	241400	6 माह
21.	वांची मनियाच्ची—तूतिकॉरन सेक्शनः— वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/स्थायी वे/तूतिकॉरन अनुभाग में तत्ताप्पराइ—तूतिकॉरन स्टशेनों के मध्य में 5. 958 कि.मी. की एक लंबाई हेतु कि.मी. 645.561 से 646.346 तक, कि.मी. 647.132 से 652.305 तक पृथक्कृत अवस्थितियों पर प्रस्तावित थ्रू रेल नवीनीकरण (प्राथमिक)।	41.37	82700	6 ਸਾਵ
22.	वांची मिनयाच्ची—तूर्तिकॉरन एवं वांची मिनयाच्ची — तिरुनेलवेलि सेक्शन :— 1.875 कि.मी. की एक लंबाई हेतु गहन जांच—पड़ताल सिहत वरिष्ठ अनुभाग अभियंता / स्थायी / वे / तिरुनेलवेलि अनुभाग में वांची मिनयाच्ची —नराइक्किनर स्टेशनों के मध्य में कि.मी. 0.370 से 0.540 तक मैन्युअल द्वारा तथा वरिष्ठ अनुभाग अभियंता / स्थायी वे / तूतिकॉरन अनुभाग एवं 0.170 कि.मी. में तत्ताप्पराइ—तूतिकॉरन स्टेशनों के मध्य में कि.मी. 645.320 से 645.561, 646.346 से 647.132, 652.305 से 654.010 तक मैन्युअल द्वारा 2.732 की एक लंबाई हेतु कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल (प्राइमरी)	102.47	201200	6 माह
23.	सहायक मण्डलीय अभियंता / दक्षिणी उप—मंडल:— वरिष्ठ अनुभाग अभियंता / स्थायी वे / विरुदुनगर एवं शिवकाशी अनुभाग में विभिन्न स्टेशन यार्डों पर 8.466 कि.मी. की एक लंबाई हेतु लूप लाइनों पर एम+4 से एम+7 तक प्रस्तावित वृद्धिकारी स्लीपर डेंसिटी	155.19	227600	6 माह
24.	मदुरै—तूतिकॉरन एवं वांचीमिनयाच्ची—तिरुनेलवेलि अनुभागः— वरिष्ठ अनुभाग अभियंता / स्थायी वे / विरुदुनगर, तूतिकॉरन एवं तिरुनेलवेलि अनुभाग में तिरुनंगलम, विरुदुनगर, तुलुकापट्टी, वांची मिनयाच्ची, तत्ताप्पराइ एवं गंगाइकोंडन स्टेशनों पर फिटिंग्स एवं फॉस्टिनंग्स सिहत नवीन 60 कि.ग्रा. रेल्स के साथ 12 में 1 में 15 सेटों के प्वांइट्स एवं क्रॉसिंग्स (सीएस+सीएमएससी) में रेल नवीनीकरण के माध्यम से	45.80	91600	6 माह
25.	दिंदीगुल—मदुरै (डीएन लाइन) अनुभागः— वरिष्ठ अनुभाग अभियंता / स्थायी वे / दिंदीगुल अनुभाग में दिंदीगुल एवं अंबातुरइ स्टेशनों के मध्य में कि.मी. 433.500 से 443.600 के मध्य पीक्यआरएस / एसक्यआरएस टेन / मैन्यअल का उपयोग करके 10.100	181.46	240700	9 माह

एलसीवी ट्रक अथवा समान वाहन 3 नग को किराए पर लेना (केवल 29 मर्दें)

प्रावधान।

अन्य विवरण जो हैं वे विस्तृत रूप में वेबसाइट https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं। निविदादाता(गण) / ठेकेदार(गण) जिन्हें मदुरै मंडल में निर्माण–कार्यों के लिए ई–निविदा हेतु आवेदन करना है, उन्हें ई–निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in पर नामांकित होने की आवश्यकता है तथा केवल ऑनलाइन निविदाएं स्वीकार्य होंगी। यह उत्तरदायित्व निविदादाता का है कि वह वेबसाइट पर बाद में अपलोड होनेवाली किसी शुद्धि अथवा संशोधन के लिए निर्गत किसी शुद्धिपत्र की जांच कर लें, निविदा जमा करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पीक्युआरएस / एसक्युआरएस ट्रेन / मैन्युअल का उपयोग करके 10.100

सहायक मंडलीय अभियंता / दक्षिण एवं सेनगोत्ताई उप–मंडलः– दो वर्षों की एकावधि हेतू वरि. डीईएन / दक्षिण / मद्रै क्षेत्राधिकारिता में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता / स्थायी वे / विरुदुनगर, शिवकाशी एवं सेनगोत्ताइ

अनुभाग हेतु ट्रैक एवं सेतु प्रत्येक एक-एक के अनुरक्षण हेतु ओपन बॉडी

कि.मी. की एक लंबाई हेतु कंप्लीट ट्रैक नवीनीकरण (प्राइमरी) 26. तिरुचिरापल्ली–दिंदीगुल– नवीन सेतु सं. 1142/ए@कि.मी.

मिलावित्तां– फ्राइट ट्रेन परीक्षण सुविधाओं में सुधार करना

343 / 800-344 / 100 एवं 1143 ए @ कि.मी. 344 / 800-345 / 200 27. मदुरै–मनामदुरै अनुभागः तिरुप्पाचेट्टी स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का

> मंडलीय रेलवे प्रबंधक (निर्माण)/मदुरै मंडल Follow us on: twitter.com/GMSRailway

794,71

115.86

560.09

32.40

9 माह

6 माह

माह

547400

207900

64800

430100 8 माह



एस आर एफ लिमिटेड

सीआईएनः L18101DL1970PLC005197 पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयुर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयुर प्लेस, मयुर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली - 110091

कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम – 122003 दूरभाष संख्याः (+91-11) 49482870, (+91-124) 4354400 फैक्सः (+91-11) 49482900, (+91-124) 4354500 ईमेलः cs@srf.com, वेबसाइटः www.srf.com

एसआरएफ लिमिटेड की 51वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

कम्पनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बृहस्पतिवार, 21 जुलाई, 2022 को 11:00 बजे पूर्वाह, कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा सूचीबद्धता विनियम, इनके साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित ८ अप्रैल २०२०, 17 / २०२० दिनांकित १३ अप्रैल २०२०, के साथ पठित परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांकित 5 मई 2020, के साथ पठित परिपत्र संख्या 02 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021 एवं परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांकित 5 मई 2022 (सामूहिक तौर पर 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) एवं सेबी परिपत्र दिनांकित 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021 तथा 13 मई 2022 (सामूहिक तौर पर 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू होने योग्य परिपत्रों के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से, एजीएम की आहूत सूचना में निर्धारित व्यवसाय के सम्पादन हेत् आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी के माध्यम से www.evoting.nsdl.com पर एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम के उद्देश्य हेतु संगणित किया जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेत् वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति कम्पनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ पंजीकृत है। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.bseindia.com एवं www.nseindia.com क्रमशः पर तथा एनएसडीएल, ई-वोटिंग एजेंसी, की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे सूचना एवं ई-वोटिंग निर्देश की सॉफ्ट प्रति प्राप्त करने हेत्. https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx लिंक पर क्लिक करके, कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता एवं मोबाइल नम्बर पंजीकृत करवा सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य cs@srf.com या Einward.ris@kfintech.com पर मेल में अपना फोलियो संख्या, पूरा पता, पंजीकृत किया जाने वाला ईमेल पता उल्लिखित करते हुए पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति एवं सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में कोई दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक विवरण, आधार) के साथ एक अनुरोध पत्र भेज सकते हैं।

सदस्य अपना विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिरक्षित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी सहभागी के साथय एवं भौतिक रूप में प्रतिरक्षित शेयरों के मामले में कम्पनी के रजिस्टार के साथ, भी अद्यतन कर सकते हैं।

दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका ("रिमोट ई-वोटिंग") एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी टिप्पणियों को, और विशेष रूप से, एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका ध्यान पूर्वक पढें।

सदस्यों से अनुरोध है कि अपना पूर्ण बैंक विवरण - अपने डिपॉजिटरी सहभागी के साथ, यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर प्रतिरक्षित हैं, एवं कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ (i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम एवं पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) उल्लिखित हो, (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, तथा (iii) रद्द किए गए चेक की प्रति einward.ris@kfintech.com पर भेज कर, यदि शेयर भौतिक तौर पर प्रतिरक्षित हैं - पंजीकृत / अद्यतन करें। कृते एसआरएफ् लिमिटेड

वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) एवं कम्पनी सचिव

की धारा 13(2) के

HOUSING अधीन डिमांड नाटिस क्रमांक 79/1, घोरपडी, मुंडवा रोड, पुणे- 411036 आप सभी निम्न वर्णित कर्जदार/सह–कर्जदारों/गारंटरों ने मग्मा हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड "एमएचएफएल" अब पुनः नामित पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड "पीएचएफएल" से अपनी अचल संपत्तियों को रेहन करने द्वारा संपत्ति की सुविधा के अंतर्गत मकान ऋण/ऋण प्राप्त किए है। आप द्वारा आपके ऋण की अदायगी में चूक होने पर उसे नॉन-परफॉर्मिंग असैट्स के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली के लिए अंतिम ज्ञात पतों पर डिमांड नोटिस भेजे गए थे, तथापि नोटिस अवितरित वापिस आ गए हैं इसलिए प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2020 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार विषयों को प्रकाशित किया जा रहा है और अन्य

धारा 13 (2) के अधीन कर्जदारों, सह–कर्जदारों, गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया राशि का विवरण डिमांड नोटिस में भेजा गया है और दावाकृत राशि नीचे|

क्र. सं.	कर्जदार, सह−कर्जदार, गारंटर के नाम तथा ऋण राशि	प्रतिभूतित परिसंपत्ति का विवरण	डिमाड नोटिस की तिथि	देय राशि रुपए में
1.	मो. हसन, गुलिस्ता	मौजा मेहुवाला माफी परगना पछवा दून, जिला	20.05.2022	21,04,564.28/- रु. (केवल
	ऋण राशिः 22,06,991.87/- रु. ऋण सं.: HM/0034/H/17/100378	देहरादून में स्थित भूमि धारक खाता नं 1913 (फसली 1417 से 1422), खसरा नं 685 किआ मिन, पुराना खसरा नं 501 क्षेत्र रकबा 112.70 वर्ग मीटर, निर्मित क्षेत्र के साथ 55.70 वर्ग मीटर की रेहन संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्ध- पूर्वः श्री गालिब हुसैन की संपत्ति, पार्श्व माप 50 फीट पश्चिमः अन्य की भूमि, पार्श्व माप 50 फीट उत्तर : 8 फीट चौड़ा मार्ग, पार्श्व		इक्कीस लाख चार हजार पांच सौ चौसठ रुपए तथा अठाईस पैसे) के साथ पूर्ण अदायगी तक 13.50% प्रति वर्ष आगामी ब्याज।
		माप 24 फीट 3 इंच, दक्षिणः श्री फूल हसन की		
		संपत्ति, पार्श्व माप 24 फीट 3 इंच।		
2.	अहतशाम अहमद, साबिया प्रवीण ऋण राशिः 10,00,000/- रु. ऋण सं.: HL/0034/H/15/100079	मौजा माजरा, परगना पछवा दून, जिला देहरादून में स्थित भूमि धारक खाता संख्या 681 (फसली 1417 से 1422) खसरा संख्या 709 जीए क्षेत्र 48.79 वर्ग मीटर में शामिल संपत्ति, सीमाबद्ध- पूर्वः श्रीमती शाएस्ता की भूमि, पार्श्व माप 35 फीट, पश्चिमः श्री प्रेमचंद बट्टा की भूमि, पार्श्व माप 35 फीट, उत्तरः श्रीमती शाहजहां की भूमि, पार्श्व माप 15 फीट, दक्षिणः 18 फुट चौड़ा मार्ग, पार्श्व माप 15 फुट।		9,68,188.02/- रु. (केवल नौ लाख अड़सठ हजार एक सौ अठासी रुपए तथा दो पैसे) के साथ पूर्ण अदायगी तक 15.05% प्रति वर्ष आगामी ब्याज।

आप कर्जदारी/ और सह–कर्जदारी/ गारटरों को इस नीटिस की तिथि से 60 दिनों के अंदर यहां ऊपर वर्णित बकाया राशि के साथ आगामी ब्याज को अंदायग के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। कृपया नोट करें कि कथित अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिना हमारी सहमति के उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों

कृते पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में मग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) प्राधिकृत अधिकारी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के नियमन 36ए (1) के तहत

(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016) प्रासंगिक विवरण कॉर्पोरेट देनदार का नाम : एलेना पावर एंड इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड 2. कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 24 अप्रैल. 2008 3. प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली निगमित/पंजीकत है 4 कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्य U45204DL2008PLC177186 /सीमित देयता पहचान संख्या कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान पंजीकृत कार्यालयः 854-ए, गली नंबर 51, ब्लॉक ई, कार्यालय (यदि कोई हो) का पता मोलरबैंड एक्सटेंशन बदरपूर, नई दिल्ली–110044 पूर्ववर्ती पताः 1. बी–91/1, भूतल, जवाहर पार्क, खान पुर, नई दिल्ली, दिल्ली -110062 2. ए-49, भूतल, रोड नंबर 4, महिपालपुर, नई दिल्ली. दिल्ली-110037 कॉर्पोरेट देनदार की दिवाला प्रारंभ तिथि 7. अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेत् आमंत्रण की तिथि 23 जून 2022 संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाध कंपनी के समाधान पेशेवर से संपर्क करने के लिए समा आवेदक(ओं) के लिए न्युनतम शर्तें इस प्रकार है: 1. 31 आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है: 2021 तक रु. 5 करोड़ की न्यूनतम मूर्त निवल संपत्ति(सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनी के लिए)। पूर्ण विवरण के लिए कृपया elena.cirp@gmail.com 9 धारा 29ए के तहत लागू अपात्रता के मानदंड यहां https://ibbi.gov.in/webfront/legal\_framework.php उपलब्ध हैं: विवरण elena.cirp@gmail.com पर एक ईमेल भेज प्राप्त किया जा सकता है 11 संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी | 16 जुलाई, 2022 13 संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी 25 जुलाई, 2022 करने की तिथि 14 संभावित समाधान आवेदकों के लिए सूचना ज्ञापन जारी करने की तिथि, मुल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान के लिए अनुरोध,योजनाएं: 15 समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन और elena.cirp@gmail.com पर अनुरोध भेज सकते हैं आगे की जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त करने का तरीका अंतिम सूची के संभावित समाधान आवेदक ,समाधान योजना या संहिता एवं इन विनियमों के अनुसार तैयार समाधान योजना को क्रमांक 21 में उल्लिखित ईमेल पते दिए गए समय के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संकल्प पेशे को प्रस्तुत कर सकते है 13 सितंबर 2022 18 अनुमोदन के लिए निर्णायक प्राधिकरण को सम योजना प्रस्तुत करने की अनुमानित तिथि 19 समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्य पंजी. नं.: IBBI/IPA-003/ICAI-N-00279/2020-2021/131 पता और ई-मेल पताः 281 / सेक्टर 51, दसरी मंजिल, सेक्टर 51, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के पीछे, सिम्फनी फ्लोर्स सोसाइटी के गेट नं. 2 के सामने, गुडगांव हरियाणा ,122018, ई-मेलः ashok.arora79@yahoo.com हस्ता / – अशोक अरोडा समाधान पेशेवर-एलेना पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

स्थान : गुड़गांव 51, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के पीछे, सिम्फनी फ्लोर्स सोसाइटी के गेट नं. 2 के सामने, गुड़गांव, हरियाणा ,122018, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, जयपर कॉर्पोरेट भवन, रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाइन्स, जयपुर [नियम 34 एवं 37 देखें]

पंजी. नं..IBBI/IPA-003/ICAI-N-00279/2020-2021/13170

मेल आईडी : elena.cirp@gmail.com

पताः 281 / सेक्टर 51, दूसरी मंजिल, सेक्टर

क्रम सं. 159/2022 सीपी नं. ( आईबी )-34/95( 1 )/जेपीआर/2022 सेवा में, जवाहर मोरानी, वैशाली नगर, गुरु जम्बेश्वर नगर, राजस्थान-302021 मामले में: वॉक्सवेगन फाइनांस प्रा.लि.

दिनाक : 23 जून 2022

हस्ताक्षर/-

रजत लखनपाल

-प्रतिवादीगण/पर्सनल गारंटः [आईबीसी, 216 की धारा 95(1) के अंतर्गत] यह कारण बताओं सूचना प्राप्त करें कि आपको 27.06.2022 को 10.30 बजे पूर्वा. में माननीय अधिकरण, जयपुर पीठ के विफल रहने पर मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी। यह सुनवाई विडियों कान्फ्रैसिंग द्वारा होगी।

समक्ष व्यक्तिगत अथा अपने कानूनी रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है जिसमें मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर 3 जून, 2022 को दी गई।

(ललित महेश्वरी), उप रजिस्ट्रा

–आवेदक/वित्तीय क्रेडीटः

(सीआईआरपी के तहत)

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, जयपुर कॉर्पोरेट भवन, रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाइन्स, जयपुर [नियम ३४ एवं ३७ देखें] क्रम सं. 160/2022 सीपी नं. (आईबी)-42/95(1)/जेपीआर/2022 सेवा में, यश मोरानी, वैशाली नगर, गुरु जम्बेश्वर नगर, राजस्थान-302021 मामले में: वॉक्सवेगन फाइनांस प्रा.लि. –आवेदक/वित्तीय क्रेडीटर यश मोरानी -प्रतिवादीगण/पर्सनल गारंट

ं आईबीसी. 216 की धारा 95(1) के अंतर्गत] यह कारण बताओं सूचना प्राप्त करें कि आपको 27.06.2022 को 10.30 बजे पूर्वा. में माननीय अधिकरण, जयपुर पीठ के समक्ष व्यक्तिगत अथा अपने कानूनी रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है जिसमे विफल रहने पर मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी। यह सुनवाई विडियों कान्फ्रैसिंग द्वारा होगी। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर 3 जून, 2022 को दी गई।

(लिलित महेश्वरी), उप रजिस्ट्रा

## punjab national bank पंजाब नेश्वनल बेंक

सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग प्रधान कार्यालय, प्लॉट संख्या ४, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

बैंक के निदेशकों और अधिकारियों की देयता बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए बोलियाँ प्रेषित करने हेतु सूचना पंजाब नैशनल बैंक, भारत की पंजीकृत सामान्य बीमा कंपनियों से बैंक के निदेशकों

और अधिकारियों की देयता बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु सीलबंद बोलियां आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in/

Tender.aspx पर जाएं। इच्छुक सामान्य बीमा कंपनियां अपनी बोलियाँ 07 जुलाई 2022 को पूर्वाह 11.00 बजे तक या इससे पहले मुख्य प्रबंधक, पंजाब नैशनल बँक, सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग,

प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं ४, सेक्टर—10, द्वारका, नई दिल्ली—110075 को प्रेषित करें। उपर्युक्त के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र/विस्तार की तिथि/स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in पर जारी किया जाएगा जो कि इच्छ्क बोलीदाताओं द्वारा नियमित रूप से देखी जा सकती है। मुख्य प्रबंधक

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 🚷 Indian Overseas Bank क्षेत्रीय कार्यालयः 595, मलिक चौक, इन्द्रा नगर, अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना (नियम s (s) के प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) के प्रावधान के अंतर्गत)

देहरादुन, उत्तराखण्ड- 248001

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

(011-28044751)

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति का पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, सपठित नियम 8(6)के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्राविधानों के आधार पर अधिनियम, 2002 के अर्न्तगत बैंक बंधक अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी यह सुचना आम तौर पर जनता के लिए और विशेष रूप से ऋणी (ओ), व निर्देशको को दी जाती है, कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/भारित है, प्राधिकत अधिकारी इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा सम्पत्ति का कब्जा लिया जा चुका है, जिसकी बिक्री "जहाँ है जैसा है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है", के आधार पर दिनांक 11.07.2022, (सुबह 11.00 बजे से शाम 04. 00 बजे तक) को ऋणी (ओ), बंधककर्ता (ओ) जमानतकर्ता (ओं) व निदेशकों से सम्पत्ति की बिक्री कर निम्नलिखित बकाया धनराशि व भविष्य के व्याज एवं अन्य खर्चे जो कि इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) को वसूल करना है, पर सम्पन्न होगी। आरक्षित मूल्य व धरोधर धनराशि निम्नलिखित है। ई-नीलामी वेब पोर्टल www.ibapi.in के प्लेटफार्म पर सम्पन्न होगी। आरक्षित मृल्य

200	बंधककर्ता/जमानती का नाम व पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि	ईएमडी बिड गुणक मूल्य
I this see that	शाखाः काशीपुर (2217)  ऋणीः श्री अजय कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह, श्रीमती सरोजवती पत्नी नेत्रपाल सिंह, हेमपुर इस्माइल, हिम्मतपुर वाजपुर रोड काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, ऋणी∕वंधककर्ताः श्रीमती सरोजवती पत्नी नेत्रपाल सिंह, हेमपुर इस्माइल, हिम्मतपुर, बाजपुर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर-244713, गारन्टरः 1. नेत्रपाल सिंह पुत्र हिमन सिंह, हेमपुर इस्माइल, हिम्मतपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713, 24 त्रिलोक सिंह पुत्र करण सिंह, हेमपुर इस्माइल, हिम्मतपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713	काशीपुर पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामीः श्रीमती सरोजवती पत्नी नेत्रपाल सिंह। सीमाएः- पूर्वः 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः जयकरण की सम्पत्ति, उत्तरः	दिनांक 08.09.2020	₹50 11,20,424/- ₹50 1,13,000/- ₹50 10,000/-
2	शाखाः काशीपुर (2217) ऋणी∕बंधककर्ताः श्री मनप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूदीप सिंह, निवासीः ग्राम- सरवरखेड़ा, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, <b>गारन्टरः</b> श्रीमती राजविन्द्र कीर पत्नी गुरूदीप सिंह, ग्राम- सरवरखेड़ा, काशीपुर, उथम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713	बंधक एक आवासीय प्लॉट माप पूर्व- 85 फीट, पश्चिम- 85 फीट, उत्तर- 48 फीट 1 इंच, विश्वण- 48 फीट, 1 इंच, कुल 3080 वर्ग फीट अर्थात् 379.18 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0380 हैक्टेयर, खसरा नं0 108, खाता नं0 00213, स्थित ग्राम-सरवरखेड़ा, निकट गुरूप्रीत राइस मिल काशीपुर, उथम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, सम्पत्ति स्वामी श्री मणप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूप्रीत सिंह। सीमाएँ:- पूर्वः वाता (श्री गुरूप्रीत सिंह) की भूमि, पश्चिमः वाता की भूमि, उत्तरः 3 मीटर चीड़ा रास्ता, विश्वणः 7 मीटर चीड़ा रास्ता। (सोकेतिक कब्जा)	रू0 14,77,260/- दिनांक 23.05.2022 + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 24.05.2022 से	₹0 12,13,376/- ₹0 1,22,000/- ₹0 10,000/-
The second	शाखाः काशीपुर (2217)  कणीः पीयूप मित्तल पुत्र पुरुषोत्तम मित्तल, निवासीः ग्राम- कुआंखेडा, निकट मोटेश्वर मंदिर, तहसील- काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, कणी/वंधककर्ताः श्रीमती नीलीमा पत्नी पीयूप मित्तल, ग्राम- कुआंखेडा, निकट मोटेश्वर मंदिर, तहसील- काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, गारन्टरः राजा खाना पुत्र केशर याद खान, निवासीः 522 के, आवास विकास, वार्ड नं0 3, सुभाष नगर, प्रताप नगर, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713	वंधक डबल स्टोरी आवासीय भवन भूमि खसरा नं0 43/3 मिन, माप पूर्व- 52 फीट, पश्चिमः 52 फीट, उल्तर- 20 फीट, दक्षिण- 20 फीट, कुल माप 1040 वर्ग फीट अर्थात् 96.65 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम- कुआंखेड़ा, तहसील- काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती नीलीमा पत्नी पीयूष मिलल। सीमाएँ:- पूर्वः द्विवेदी की भूमि, पश्चिमः अन्य व्यक्ति की भूमि, उत्तरः 20 फीट चीड़ा रास्ता, दक्षिणः अन्य व्यक्ति की भूमि। (सांकेतिक कब्जा)	रू0 9,39,715/- दिनांक 31.05.2022 + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2022 से	₹0 12,75,483/- ₹0 1,30,000/- ₹0 10,000/-

सम्पत्ति निरीक्षण करने का समय सुबह 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

दिनांकः 22.06.2022

प्रत्याशित बोलीदाता सम्पत्ति के निरीक्षण/ई-नीलामी, से संबन्धित जानकारी के लिए कि सं0 1 से 3 के लिए:- शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, चामुंडा कॉम्प्लेक्स, रामनगर रोड़, काशीपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, सम्पर्क नं0 05947-272219, 9410518958 पर कार्यदिवस के दौरान कार्यालय पर अथवा बैंक द्वारा सर्विस प्रदाता M/s MSTC Limited, 225-सी, ए0जे0 सी0 बोस रोड, कोलकत्ता-700020 हेल्प लाइन नं0 033-22901004

विस्तृत नियम व शतौं के लिए कृपया हमारी वेबसाइट (वेब पोर्टल) www.ibapi.in or www.iob.in पर देखें

दिनांकः 22 जून 2022 स्थानः गुरुग्राम

POONAWALLA

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के तौर पर ज्ञात) कॉपोरेंट कार्यालय: 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क,

वैकल्पिक सेवाओं के माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं।

का बिक्री, पट्टे या अन्यथा द्वारा हस्तांतरण करने के लिए बाधित हैं। स्थानः देहरादून (उत्तराखंड) दिनांक: 23.06.202**2** 

22.06.2022

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सभी बोलीदाता व खरीददार को सर्विस प्रदाता के वेबसाइट पर: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi पर सम्पर्क करें।

www.readwhere.com